

गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066, इंडिया GAIL BHAWAN, 16 BHIKAIJI CAMA PLACE NEW DELHI-110066, INDIA फोन/PHONE:+911126182955 फैक्स/FAX:+911126185941 ई—मेल/E-mail:info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2019

30.05.2019

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400051

Listing Department
BSE Limited
Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

Sub.: Newspaper Publication

Dear Sir,

This is in compliance of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the subject citied above, please find an attachment.

The above is for your information and records.

Thanking you, Yours faithfully,

(A.K. Jha)

Company Secretary

जागरण संबाददाता, पश्चिमी दिल्ली ः जोहरू

उत्तरा तीसरा भाई भी जान गंवा बैठा। पुलिस

व दमकल विभाग के कर्मचरिकों ने करीब

डेढ़ घंटे के तलाशी अभियान के बाद तीनों

पलिस के मतबिक जाफरपरकलां थाना

क्षेत्र स्थित रावता गांव निवासी अमन सिंह

पशु पालते हैं। सोमवार को स्कूल से आने

के बाद उनके बेटे शुभम (16), पीयुष

(13) व रुद्राक्ष (11) पशुओं को लेकर

श्याम जोहड् गए थे। इनके साथ कुछ और

बच्चे भी थे। बताते हैं कि पशु जोहड़ में

काफी अंदर चले गए,पशुओं के नहीं

निकलने पर पीवृष व रुद्राक्ष जोहड़ में उतर

गए। पानी ज्यादा होने की वजह से दोनों भाई

ड्बने लगे। यह देख बड़ा भई शुभम इन्हें

बचाने के लिए जोहड़ में कूद गया, लेकिन

वह भी डूबने लगा। बच्चों की चीख पुकार

सुनकर पहुँचे गाँव वालों ने उन्हें दूंढना शुरू

किया।साथही पुलिस को भी सूचना दी।

इस बीच एक बच्चा पानी के ऊपर आ गया,

लेकिन गांव वालों ने जब तक उसे निकाला

के शव जोहड़ से निकाल लिए हैं।

एयर क्वालिटी इंडेक्स

दिल्ली		पीएम2.5		
आज का अनुमान	70	सामान्य		
संमधार	63	समान्य		
पीतमपुरा				

आज का अनुमान | 149 बहुत खराहा दिल्ली विश्वविद्यालय

आज का अनुमान १७७ खत्सनाक संमधार १५० बहुतखराव लोधी रोड

आज व्याअनुमान 💖 ८६ समान्य पुसा आज का अनुमान खरहा

खरहा

संमधार मथुस सेड आज का अनुमान १४७ बहुतखरहा

नोएडा १७६ स्वतारनाक आज का अनुमान सोमधार १५० बहुतखरहा

गुरुग्राम अञ्ज का अनुमान १५६ बहुतखरहा 131 बहुतखरहा

60 अच्छा सामान्य 120 121 160 बहुत खराब १६१ से आगे खतरनाक

नोटःपर्टिकुलेटमैटर(प्रकृष्कतत्व पीएम २.५) माइकोप्राम व्यक्तिक मीटर है।सामान्य स्तर 90 निधीरित है।



नोट :शिया ह्यारात इफ्तार 10 मिनट बाद करेंगे और सहरी 10 मिनट फुले खत्म करेंगे।

एक नजर

अब डीएमसी भी कर सकता है दूध के दाम में बढ़ोतरी

नई दिल्ली : पशुपालन मंत्रीतरूण श्रीधर ने कहा कि डेयरी कर्म दिल्ली मिल्करकीम(डीएमसी) राजधानीमों खुदरा दूधकी बढ़ोतरी कर सकती है। इससेपहले मदर डेयरी और अमूल दूध कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं । उन्होंने वहाकि नंदिनी और सुधा जैसे अन्य सहकारी दूध ब्रांड द्वारा ऐसा करने की अधिक संभावना नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें उन्हें सब्सिश्च दे रही हैं। हालाँक, एक समानखुदरामूल्य तय करने की किसी भी संभावना को उन्होंने खारिज किया है। देश को चालू की 2019-20 में उत्पादन में सहाप्रतिष्ठता तक की वृद्धिकी उम्मीद है। दूध का उत्पादन ६.५ प्रतिशतप्रति वर्ग की दर से लगातार बद्ध रहा है।(जास)

काठगोदाम शताब्दी के समय में 10 जुन से होगा बदलाव

नई दिल्ली ः नई दिल्ली - काटगीदाम शताब्दी एक्सफ्रेस (12040/12039) कै समय सारिणी में दसजून से बदलाव किया जारहाहै। नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह छह बजें के बजाय सुबह 06.20 बजे प्रस्थानकर उसीदिन पूर्वाहन ११ .४० बजे काटमोदामपहुचेभी ।वामसी में काटगोदाम- नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेसरेलगाडीकाटगीदामसे अगरह्न ०३ .३५ बजे प्रस्थान कर उसी दिन रात्रि 09 .10 बजे स्थानपर रात्रि 08.50 बजे नई दिल्ली पहुँचेगी। (राष्ट्र)

हाई कोर्ट के चार नवागत न्यारामृर्तियों ने ली शपश

नई दिल्ली : दिल्लीहाई कॉर्ट के मुख्यन्यायमूर्ति ने सोमदार की चार न्यायमूर्तियों को शपथ दिलाई। इसके साथही दिल्ली हाई कोर्ट में खीकृत 60 पदों में से अब 40 न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हो चुकी है। २० पद अब भी रिवताहैं। मुख्यन्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने न्यायमृति आशा मेनन्, न्यायमृति तलवंत सिंह, न्यायमृतिं रजनीशा भटनागर व न्यायमृतिं वृजेश सेठी को शमय दिलाई। आशा मेनन समेत वर्तमानमें हाई कोर्ट में आदमहिला न्यायमूर्तिहैं । चार नए न्यायमूर्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कीविद ने सरकार द्वारा स्वीकृतिके बादकीथी। यह सभी इससे पहले दिल्ली के अलग-अलग स्त्रा न्यायालयों में थे। नए रोस्टर केतहत अब न्यायमृतिं बृजेश सेटी मुख्यन्यायमूर्ति राजेंद्रमेननके साथ बैटेंगे। न्यायमूर्ति एस मुरलीघर के साथ आशा मेनन, न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ तलवंता सिंह और न्यायमूर्ति विपिन सांधी के साथ न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर बैटेंगे । (जास)

बदमाश के पिता ने बवाना थाने में दी जान रावता गांव के जोहड़ में डूबे

बेटे के बारे में पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी पुलिस

के प्रकास के मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश के पिता ने बवाना थाने की तीसरी मॅजिल से कुक्कर आत्महत्या कर ली। पुलिस उन्हें फरार चल रहे बेटे के बारे में पूछताछ के लिएलाई थी। मृतक की पहचान बलाराज (55) के रूप में हुई है। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर जांच अधिकारी एसआह गर्जेंद्र माथुर को लाइनहाजिर व सिपाही प्रवीण को निलॉबित कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि थाने में बलराज की पिटाई से मौत हुई है और घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया

बलराज बाजितपुर गाँव में परिवार के साथ रहते थे। वह पहले बवाना औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी करते थे, लेकिन करीब एक साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका छोटा बेटा राहुल गत साल हुए कुख्यात बदमाश मीन बाजितपुरिया की हत्या के प्रयास के मामले में रोहिणी कोर्टसे भगोड़ा घोषित है। इसी माह 22 मई को बाजितपुर गांव में मेहित नाम के युवक को चार गेलियां। मारी गई थीं।। इस मामले में भी राहुल का नाम सामने आवा था। ऐसे में बवाना अरिसर में भगदड़ मच गई। आननफानन थाना में मामला दर्ज कर पुलिस राहुल की तलाश कर रही थी। पुलिस ने रहिल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रविवार की सुबह 11 बजे बलराज व उनके दामाद मुकेश को थाने लेकर गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे बलराज ने पुलिसकर्मिकों से पानी पीने जाने की बात कही। वह थाने की तीसरी स्तर के अधिकारी करेंगे। फिलहाल दिया गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली ःदिल्ली

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 12वीं तक

निशुल्क शिक्षा को लेकर प्राथमिकता

से विचार करने को कहा है। कोई उस

जनहित याचिका पर सुनवई कर रही

थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर

बच्चों को निशुल्क शिक्षा आठवीं से

बढ़ाकर 12वीं तक किए जाने की मांग

मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व

न्यायमुर्ति बुजेश सेठी की पीठ ने

सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा

कि वह गंभीर नीतिगत मामला है और

इस पर नई सरकार को प्राथमिकता के

आधार पर निर्णय लेना चाहिए। पीठ

ने इस मामले पर आगामी 22 जुलाई

को होने वाली सुनवाई से पहले शपथ

पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए।

पिछली तारीख पर मानव संसाधन

विकास मंत्रालय ने शपथ पत्र दखिल

कर कहा था कि इस संबंध में एक

प्रस्ताव तैकार किया गया है। इस संबंध में केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की

सहमति जस्की है।शिक्षा का अधिकार

एक्ट के तहत 12वीं कक्षा तक निःशल्क

शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व की थी कि शिक्षा के अधिकार के तहत



बलासान की मीत केबाद बदाना थाने के बहर खड़े परिजन बअन्य लोग 🌸



रहुल केपिता बलराजको पूछताछ के लिए बुलाया गया था पुरुतारुकेबादउन्हें चर जाने के लिए कह दिया गयाथा, लेकिनउन्होंनेखुक्कशीकर ली।वह पुलिसहिरासत मेन्हीश्रे (धटनाकीमजिस्ट्रेटी जांचकराई जा स्हीहै । गौरव शर्मा, पुलिस उपायुक्त, उत्तरी बाहरी जिला

मॅजिल पर गए और नीचे छलांग लागा दी। अचानक हुए इस हादसे से थाना में बलराज को रोहिणी के बाबा साहेब नजर आ रहे हैं। इसके साथ बलराज के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया वर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फटेज गया, जहां उन्हें मृत योषित कर दिया को जबा कर लिया गया है।इस फुटेंज में

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हुएदिखाई देखें हैं।सोमवार को मौलाना का कहना है कि थाने में खुदकशी का आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम मामला है। ऐसे में इसकी जांच डीसीपी कराने के बाद शव परिजनों को सौंप

शिक्षा का अधिकार

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को शपथ

पत्र दाखिल करने के लिए कहा

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को

निशुल्क शिक्षा देने का मामला

गङ्ग के बाद ही संभव है। हालांकि,

केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि

जब तक नई सरकार का गठन नहीं

होता है, तब तक दिल्ली सरकार ऐसे

स्कूलों से संपर्क करे, जो कि आडवीं

के बाद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों

को दाखिला देने से इन्कार कर रहे हैं।

अदालत ने गैर सरकारी संस्थान

सोशल जुरिस्ट की तरफ से दायर

जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली

सरकार को नोटिस जारी कर जवाब

कि निजी स्कूलों में आडवीं कक्षा के

बाद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को

वा तो फीस जमा करने को कहा गया

वा फिर स्कल छोड़ने को कहा गया।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग

याचिका में आरोप लगाया गवा था

थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, जिनमें , बलराज तीसरी मेंजिल से नीचे गिरते बलराज एक पुलिसकर्मी के साथ जाते

मदरसे, गुरुकुल में

जासं, नई दिल्ली : मदरसे और

गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा

को नियमित करने के लिए हाई

कोर्ट में याचिका दायर की गई

है। इस याचिका को सुनने के

लिए 29 मई को मुख्य न्यायमूर्ति

राजेंद्र मेनन और न्यायमृति कृजेश

सेडी की पीठ ने सूचीबद्ध किया

है। याचिका में मांग की गई है कि

पूरे देश में ऐसे शिक्षण संस्थानों में

दी जाने वाली शिक्षा को नियमित

करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी

किया जाए। सुनील सराओगी की तरफ से दायर की गई याचिका

में कहा गया है कि देश की

राजधानी में ही तीन हजार मदरसे

हैं और इनमें साढ़े तीन लाख से

ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन शिक्षण

संस्थानों में अभी भी 18वीं सदी

की पद्ध कराई जाती है। इससे

छात्रों रोजगारपरक शिक्षा नहीं

मिल पाती, इसलिए इन संस्थानीं

नियमित हो शिक्षा '

पिता ने फोन पर कहा था, थाने मत आना, पुलिस पीट रही है: सुनील

खुदकशी करने से करीब 20 मिनट पूर्वे बलएाज ने बड़े बेटे सुनील को फोन किया था। सुनील ने बताया कि करीब सात बजकर दस मिनट पर पिता ने फोन पर कहा था कि पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे हैं और उसे भी खोज रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस वाला बुलाए तो थाने मत आना। पिता को पुलिस पहले दरियापुर चौकी लेकर गई थी, इसके बाद उन्हें बवाना थाने ले जांका गया

सुनील ने बताया कि घटना के समक उनकी मां राजरानी भी बवाना थाने के बाहर मौजूद थीं। शाम पांच बजे तक पिता थाने से वापस नहीं आए थे, ऐसे में उनके बारे में पता लगाने वह गई थीं, लेकिन उन्हें थाने के अंदर जाने नहीं दिया गया। गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बताया कि बलराज को कुछ देश में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर ही बाद देखा कि पुलिस खून से लक्ष्पथ उनके पति। को पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाकर जा रही है। मां के साथ अन्य परिजन भी वहां मौजूद थे।

सुनील का आरोप है कि उसके पिता खुदकशी नहीं कर सकते हैं, बल्कि पुलिसकर्मियों ने फिटाई के कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस कमियों के खिलाफ

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्लीः कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नौ दिन पहले की थी बेटी की शादी : वारदात से ठीक नौ दिन पूर्व ही बलराज ने बेटी लाध्मी की शादी की थी। पुलिस ने उनके परिवार पर दबाव बनाने के लिए दामाद मुकेश को भी थाने बुलावा था।

गैंगवार से जुड़ा है घटनाक्रम

यह पूरा घटनाक्रम गैंगवार से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बलराज का बेटा राहुल हितेश उर्फ हैप्पी गैंग से जुड़ा है। हैपी गैंग व मोनू बाजितपुरिया गैंग के बीच 2012 से अदावत चली आ रही है। हैंपी ने मोनू की नाबालिंग चचेरी बहन का अपहरण कर लिया था। बाद में अफ़्रण की घारा में मुकदमा दर्ज हुआ और हैप्पी गिरफ्तार हो गवा था। जेल बाहर आते ही उसने मोनू के बहन की हत्या कर दी थी, तभी से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। दोनों फिलहाल जेल से गिरोह का संचालन कर रहे हैं। 2018 के दिसंबर में बवाना इलाके में हैप्पी के इशारे पर मोनु पर जानलेवा हमला हुआ था।इसमें राहुल का नाम सामने आया था और इसी में वह भगोड़ा योषित है। इसके बाद एक फरवरी को होलांबी खुर्द में राहुल के चचेरे भाई विकास की गोली मार हत्या कर दी गई थी तो 22 मई को मोनू के दोस्त

मेहित पर जानलेवाह मला हुआ था।

तीन सगे भाई, शव बरामद

- में छुसे पशुओं को निकालने के प्रकास में सोमवार की दोपहर पशुओं को लेकर दो सँगे भाई पानी में डूब गए। उन्हें बचाने जोहड़गए थे तीनों भई
 - पशुओं को निकालने की घुसे भड़्यों को बचाने में गई तीसरे की जान

विभाग के कमियों ने क्ले हुए दोनों भाइयों की तलाश कर करीब डेढ़ घेंटे में निकाला। इस बीच उनकी भी मौत हो चुकी थी।

अमन के धर में अब मातम : तीन बच्चे की मौत से अमन सिंह के घर में अब चीत्कार और मातम का माहौल है। एक साथ तीन बेटों को खोने से जहां अमन सुष-बुष खो चुका है। वहीं उनकी पत्नी रोते-रोते बेहोश हो जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि एक साथ तीन शव फ्रुंचने से पूरे गांव में शोक की लहर है। हर कोई अमन के दुख में शरीक होकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमन बस एक ही बात कह रहे हैं, कि मेरा तो सब कुछ ईश्वर ने छीनलिया। भला अब मै सब्रकैसे करुं, यह सुनते ही न सिर्फ सांत्वना देने वाले लोग बल्कि आसपास मौजूद लोग भी अपने वह दम तोड़ चुका था। इसके बाद दमकल आंसू रोक नहीं पा रहे थे।



'12वीं तक निशुल्क शिक्षा पर करें विचार' अधिकारी निकालेंगे सेंद्रल वर्ज की समस्या का हल

राजा बारो, नई दिल्ली : चांदनी चौक की में शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम, पुनर्विकास योजना के तहत लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक की सड़क पर बीचोंबीच यानी सेंट्रला वर्ज पर प्रस्ता वित निर्माणका विकल्प क्या होगा, यह अब अधिकारियों के दौरे से तय होगा। बुखवार को विभिन्न एजेंसियों और विभागों के अधिकारी यहां दौरा करके समस्या का सर्वसम्मतसमाधान ढूंढेंगे ।

सोमवार को उपराज्यपाला अनिल बैजल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास से जुड़े मसले पर फिर बैठक ली। राजनिवास में हुई बैठक तक सुझाव देने का निर्देश दिया है।

यूटीपैक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और बीएसईएस सहित अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 2018 में ही स्वीकृत हो चकी बोजना पर दिसंबर में काम भी शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और चार विशेषज्ञों की ओर से केज़ना के कुछ प्रावधानों के खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाल दिया गया। उपराज्यपाल एक बैठक फ्हले कर चुके हैं। बैजल ने अधिकारियों को बुधवार

राज्य सरकार को अनुदान की व्यवस्था वच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुरूक के लिए एक शिक्षा नीति बने। करनी होगी, जो कि नई सरकार के शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। · 24 Years of Establishment 9500+ Placements . Fully Wi-Fi 95 Acre Campus . Highly trained faculty State of the art Library, Scholarships upto 100% WORLD CLASS EDUCATION WITH A DIFFERENCE ACADEMIC COLLABORATION WITH - IBM - SAP - MICROSOFT - CISCO - CADD CENTRE ADMISSIONS 2019 FACULTY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF AGRICULTURE Civil (Structural Engineering) B.Sc (Hone.) Apriculture B.Sc (General) Computer Science & Engineering a) Botzany, Zoology & Chemistry ACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES Electronics & Communication Engg. b) Biochemistry, Microbiology & Chemistry Diploma in Medical Lab. Tech. (DMLT) Mechanical Enga municipal

Bachelor of Physiotherapy (BPT) FACULTY OF ARCHITECTURE Bachelor of Architecture (B.Arch)

B.Com (General) . B.Com (Hone.)

BBA (In sesccitation with IBM) M.Com . MBA BBA with MBA (Integrated) ACULTY OF DENTAL SCIENCES

FACULTY OF EDUCATION Bachelor of Education [B.Ed.] ACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY Tech in

Comp. Sc. (Sig Date Analytical] in association Comp. Sc. (Sout Computing) | with IBM Comparter Science & Engg. Computer Science & IT Mechanical Engineering Civil Engineering

Electronics & Communication Engage

FOR FURTHER ENQUIRY CALL US ON

1800-180-6600 (Toll Free)

Geography Political Science - Geography Sociology

Sociology - Political Science

· English · Economics · Psychology History - Journalism & Mass Comm FACULTY OF LAW - B.A. LLB

Meditanical Engl. ouche bear a come

. B. Tech with MBA (Integrated)

• BFA • B.Des

B.A. (Hons.) in

· B.Com. LL.B

B.Sc. Nursin

FACULTY OF NURSING

+ LLB

FACULTY OF FINE ARTS & DESIGN

FAGULTY OF HUMANITIES & SOCIAL

English * Economics * Psychology

Journation & Mass Communication

B.Sc. (Hors.) in Nutrition & Diesetics

Blochemistry - Microbiology M.Sc In Nutrition & Dieletics

FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCI. D.Pharma * B.Pharms * M.Pharms FACULTY OF PHYSICAL SCIENCES BCA - MCA - MCA - Lateral

B.St. (General) in a) Physics, Chemistry & Maths b) Physics, Maths & Computer Science B.Sc (Hons.) in . Physics . Chemistry

 Statistics • Information Technology M Sc In Physics - Chemistry - Mathematics Computer Science • Information Tech PRIM POLYTECHNIC (DIPLOMA)

. Maths . Computer Science

Automobile Engg. • Civil Engg. Computer Engg. * Electrical Engg. Electronics & Communication Engg. Mechanical Engg

PDM UNIVERSITY CAMPUS AT SECTOR-3A, SARAI AURANGABAD, BAHADURGARH (DELHI-NCR) Website: www.pdm.ac.ln Email: admissions@pdm.ac.in



दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त विमाही एवं वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम का सारांश

क. सं.		पुक्रम				समेकित	
		समाप्त विमाही		समाप्त वित्तीय वर्ष		समाप्त वित्तीव वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019				
	नेखापरीवित	नेवापरीवित	वेखापशिक्षत	लेखापरीक्षित	लेखामधीदात	नेवापरीक्षित	
1	प्रयालनों से कुल आय	18,763.87	15,430.69	75,126.76	53,825.49	76,234.17	54,694.31
2	अविष हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, खपबादात्मक और/या असाबारण मद पूर्व)	2,066,26	1,576.71	9,411.15	6,930.68	9,831.19	6,935.76
3	अवधि हेतु कर पूर्व निवस लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद परचात)	1,739.93	1,604.40	9,084.82	6,958.37	9,831.19	6,935.76
4	अबिंग हेतु कर परचात निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मद परचात)	1,122.23	1,020.92	6,025.67	4,610.41	6,552.77	4,805.05
5	अवधि हेतु कुल समग्र क्षाय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं खन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) सहित	1,067.23	609.86	5,855.42	4,281.78	6,430.11	4,484.27
8	प्रदत्त इविषटी शेयर पूंजी (अंकित मृज्य 10/— रूपए प्रत्येक)	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07
7	तुसन पत्र के अनुसार पुनर्मूस्यांकित रिज़र्व के असावा रिज़र्व		All of	36,882.25	32,947.18	38,716.88	34,268.69
8	प्रति शेवर आय (अंकित मूल्य रु. 10 / — प्रत्येक) (क) मूल (ख) तनुकृत (तिमाडी हेतु श्रीएस का वार्षिकीकरण नहीं किया गया)	4.98 4.98	4.53 4.53	26.72 26.72	20.48 20.48	29.03 29.03	21.28 21.28

 छपर्युक्त नास्तीय प्रतिनृति और विनिमय बोर्ड (सूचीवद्धता और अन्य विगोपन अपेक्षाए) विनियन, 2016 के विनियन 33 के अधीन विस्तृत फार्नेट में स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किए गए ३१.09.29/19 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंज की वेवसाइट (www.neeindia.com, www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाहट (www.gallonline.com) पर उपजब्द है ।

2. सपर्युक्त परिणाम कंपनी अविनियम, 2013 की घारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनियों (मारपीय लेखा मानक) नियम, 2016 (इंड एएस) के अनुसार है, जिसे उसके अंतर्गत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों और सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए 🛘

निदेशक मंडल ने प्रत्येक फ. 104- के दिविषटी शेयर के लिए ब्रांतिम लागांश छ. 1.77 की सिफारिश की है ।

पिछली अवधि के आंकड़ों को, चासु अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए जहीं कहीं आवश्यक है, पुनः समृहीकृत किया गया है।

दिनाकः 27 मई, 2019


स्थानः नई दिस्सी

कृषे नेस (इंकिया) सिनिटेक बस्ता/-(ए. के. विवासी) निवेशक (वित्त)

पंजी. कार्यालय : 16, श्रीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई विरुली-110066 www.gailonline.com सीआईएन: L40200DL1984GDI018975

हमें प्राप्तां क्यें 🔐 🔠 🌃

THE MARKETS ON MONDAY Sensex 39,683.3 248.6 Nifty 11.924.8 80.7 Nifty futures* 11,968.6 43.8 Dollar ₹77.8** ₹77.8 Brent crude (\$/bbl)** 69.3** 69.8## ₹31,715.0▲ Gold (10 gm)*** ₹125.0



THE CMIE TRACKER

Consumer Sentiment Index

(Base: September - December 2015 = 100)

10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 104 Mar

Unemployment rate

UNEMPLOYMENT RATE

INDIA INVITES BIMSTEC

MODI'S SWEARING-IN

leaders of the BIMSTEC member countries

to attend the swearing-in ceremony of

Prime Minister Narendra Modi and his

council of ministers on Thursday. Unlike

2014, when India invited leaders of SAARC

member countries including Pakistan to

countries for the event. In 2014, the then

Pakistan prime minister Nawaz Sharif

ministers will take the oath of office at

Cong mulls presidium as

Rahul remains unmoved

continuing to insist on quitting as the party chief, senior party leadership is considering a couple of alternatives, including a

presidium of leaders running the party's

delegation of MPs who had hoped to

persuade him to change his decision.

day-to-day affairs. According to Congress

sources, Rahul on Monday refused to meet a

▶ EDIT: **BRING BACK THE SYNDICATE** P9

IndiGo net soars 5-fold,

shuns slowdown woes

Executive Officer Ronojoy Dutta said. 2

WHY AIR INDIA MAY LOOK APPEALING TO BUYERS

RESULTS RECKONER

Quarter ended Mar 31, 2019; common sample

of1,404 companies (results available of1,657)

Mar 31, '18 **-32.7%** 69,386 crore

46.0%

Companies which have reported zero sales are excluded

Data compiled by BS Research Bureau; Source: Capitalia

14.4% 15.63 trillion **7**

9.1% 17.06 trillion **2**

1.01 trillion

IndiGo posted over fivefold rise in net

profit in the fourth quarter of FY19, ruling out any impact of an economic

slowdown in air travel growth. "Looking ahead, it is difficult not to be bullish about the future," IndiGo Chief

With Congress president Rahul Gandhi

had attended the ceremony. Prime

Minister Modi and his council of

7pm on Thursday.

BACK PAGE P22

the swearing-in ceremony of the PM, it

has kept that grouping out and sent

invites to leaders of the BIMSTEC

LEADERS TO ATTEND

India on Monday said it has invited

STABILISES AT 7%

BUSINESS Standalling **BRAND WORLD P21**

www.business-standard.com



BACK PAGE P22 CENTRE, LEFT OUT: EU MAKES A FAR-RIGHT TURN

PUBLISHED SIMULTANEOUSLY FROM AHMEDABAD, BENGALURU, BHUBANESWAR, CHANDIGARH, CHENNAI, HYDERABAD, KOCHI, KOLKATA, LUCKNOW, MUMBAI (ALSO PRINTED IN BHOPAL), NEW DELHI AND PUNE

Centre to bite the bullet on labour reforms

SOMESH JHA New Delhi, 27 May

he National Democratic Alliance (NDA) government, led by Prime Minister Narendra Modi, will expedite the process of labour law reforms in its second innings, senior government officials said on Monday.

"We will hasten the process of labour laws codification. At least three out of the four labour codes will be taken up immediately and pushed for approval of the Union Cabinet," said a labour ministry official.

After assuming power in 2014, the NDA government had planned major reforms in labour laws in the form of codes. It had planned four codes each for industrial relations, wages, social security and welfare, and occupational safety, health and working conditions. Over 40 central labour laws were supposed to be converted into four codes. However, none of the proposed code Bills could be converted into a law as the government took time in bringing trade unions and industry representatives on board in the five years of its governance.

A ministry official said priority will be to get the Code on Wages Bill passed in Parliament, adding that a meeting with trade unions and industry representatives will not be required to discuss it any longer. The Code on Wages Bill was tabled in Lok Sabha (LS) during the first tenure of the government and it was referred to the standing committee that had given its comments to the labour ministry, but the Bill lapsed after the dissolution of the 16th LS.

"Only interministerial comments on the Cabinet note for the Bill will be sought, following which a Cabinet approval will be taken and the Bill introduced in Parliament," the official added. Turn to Page 21



IN THE WORKS

Code on Wages Bill

Key proposal: A national minimum wage for different geographical areas applicable

Code on Industrial Relations Bill

Key proposal: Workers in all factories will be required to give employers a strike notice of at least two weeks

Key proposal: Phase-wise security to all workers

to all employment

Code on Social Security Bill universal coverage of social

► FINANCE: ALL ROADS LEAD THE BLUEPRINT From cleaning up bank ► ENERGY: LOFTY addressing the NBFC crisis, and getting the country ready for 5G **GOALS FOR** STRONGER auction, here's a

TO BIG INDIAN BANKS TELECOM: BSNL,

MTNL

REVIVAL

ENERGY ON THE ACCESS PLATE; 5G **SCHEMES** FOR ICING

NDA 2ND TERM: 100-DAY AGENDA P4▶

Mid, small-cap funds ride on Modi wave

Mid- and small-cap schemes, which had

given tepid returns in recent years, have bounced back sharply in the last week following the euphoria surrounding election results. After the Bharatiya Janata Party's stunning victory, market players now see scope for a broad-based market rally. Further, they expect quality midand small-cap companies to do well.

Association of Mutual Funds in India (Amfi), small- and mid-cap funds posted gains of 5.4 per cent and 4.6 per cent, respectively, over the past week. Both

BROAD-BASED RALLY

by large-cap ones in the last week (in %) Fund category Last week 3-month 1-year 5.39 9.2 7.7 -2.83 4.19 8.98 10.5

categories bettered the gains posted by

THE SMART INVESTOR

snapshot of what's

being planned

Mid-, small-cap funds beat gains posted Sources: Amfi, Value Research

According to data from the large-cap funds, which rose 4.2 per cent on an average. Turn to Page 21

→ Markets continue to cheer NDA win

Average taxpayer 346 yrs behind MPs

New Members of Parliament boost Lok Sabha wealth numbers

ILLUSTRATION: AJAY MOHAN

RISING GULF

SALES

Mar 31, '18

Mar 31, '19

NET PROFIT

Mar 31, '19

MPs' average assets as multiple of individual income **2014 2019**

305.8 Individual salary gross total

Individual business MP: Member of Parliament; Note: Analysis based on FY26 income-tax data, which was the latest available. Gross total income includes salary, business and all othe sources of income. urces: National Election Watch (Association for mocratic Reforms), income-tax data, isiness Standard calculations

SACHIN P MAMPATTA Mumbai, 27 May

The gap between Members of Parliament (MPs) and their constituents may have just widened. The average assets of an MP are $now\,345.8\,times\,that\,of\,an\,annual$

income of a tax-filing individual. Thismeansit will take the averagetaxpayer345.8 years to earn the equivalent of the assets of the average Lok Sabha MP.

This is only marginally worse than before. It was 299.8 times in 2014. The income-tax data for previous years is not

The data is based on gross income given in income-tax statistics.

Gross income includes all earnings including salary, business income as

The analysis used 2016-17 (FY17) numbers (the latest available). The asset details are based on the latest affidavits for MPs, collated by nongovernmental organisation Association for Democratic Reforms $though its \, campaign \, National \, Election \,$ Watch, in periodic reports.

The average assets of MPs have risen at an annualised rate of 7.3 per cent between 2014 and 2019. Gross income grew slightly slower at 7.2 per cent between FY14 and FY17 for individuals filing income tax returns. Average gross income rose from ₹4.9 lakh to ₹6 lakh. Turn to Page 21

On-tap licences: Leading NBFCs in talks with RBI

Pressure on sector to have stable funding base a major reason

RAGHU MOHAN New Delhi, 27 May

Fresh interest for on-tap banking licences is building up from non-banking financial companies (NBFCs), a fallout of the ongoing crisis in the sector. A few leading NBFCs are in talks with the central bank on regulatory issues surrounding on-tap licences, the terms of which were spelt out in August 2016.

Senior officials from three NBFCs confirmed they have begun discussions with the Reserve Bank of India (RBI), but did not want to go on record.

On-tap licences did away with the earlier process of issuing banking licences in fits and starts, but the process is in no way lenient. As on date, the only application pending before the RBI is that of Unimoni Financial Services (erstwhile UAE Exchange).

Most applicants did not pursue their on-tap licensing dream because they could not measure up to the intense scrutiny of the central bank. It also made sense to put these ambitions on the back burner as the NBFC business model was in a sweet spot in the years since the guidelines were announced, until the blowout at the Infrastructure Leasing & Financial Services.

"The RBI's draft asset-liability management guidelines for NBFCs, released last week, are akin to banks and there is not much to gain by remaining an NBFC once you have reached a certain size," said an analyst at a local brokerage. There is also a holding company structure for financial conglomerates,



DEV CHATTERJEE Mumbai, 27 May

On-tap licences did away with issuing bank licences in 'fits and starts'

- Most applicants dropped the ambition, given intense scrutiny of central bank
- NBFCs assessing likelihood of a positive outcome
- **New holding company** norms another reason

which is in the works.

"Both will drive NBFCs to look afresh at their banking ambitions and take a relook at the on-tap route, including those from industrial groups," he added. A non-operative financial holding company is mandatory in the case of applicants that have other group entities.

"Most players, mainly large- to medium-sized NBFCs and individuals, fear rejection without response and hence, they do not really want to send in an application unless they are sure of acceptance. Of late, we have seen many players open up a dialogue with the RBI to assess if the outcome of their discussions could be positive," said Abizer Diwanji, head (financial services), EY India.

Debt recast: RBI may relax voting norms

The Reserve Bank of India (RBI) is likely to relax the voting threshold of lenders — for any corporate debt restructuring — to 90 per cent, as compared to the earlier 100 per cent under the February 12, 2018 circular.

The lowering of the voting threshold is expected to help several firms avoid bankruptcy, and aid banks in recovering dues faster. According to a person close to the development, the proposal was made by the Indian Banks' Association (IBA) to the RBI, after the Supreme Court struck down the February 12 circular last month.

"The RBI is expected to accept the IBA's proposal," said the person. In the last two years, corporate debt recast has come to a virtual halt with banks — including those with lowest voting share in a consortium — managing to stall the entire process in the meetings by voting against the proposal, because of the 100 per cent requirement.

India Inc CFOs want the RBI to reduce the threshold further to 66 per cent, as even 90 per cent may not help them much. "The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) requires 66 per cent consent for debt resolution and even during earlier circulars, the RBI sought only 66 per cent voting for corporate debt restructuring. With 90 per cent mandatory voting, chances of debt resolution are still slim," said the person.

The 100 per cent voting clause has already sent several firms to the National Company Law Tribunal (NCLT) for debt resolution, under Turn to Page 21 ▶



		Standalone				Consolidated	
Sl.		Quarter Ended		Financial Year Ended		Financial Year Ended	
No.		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.201
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	18,763.87	15,430.69	75,126.76	53,825.49	76,234.17	54,694.3
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,066.26	1,576.71	9,411.15	6,930.68	9,831.19	6,935.76
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,739.93	1,604.40	9,084.82	6,958.37	9,831.19	6,935.7
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,122.23	1,020.92	6,025.67	4,618.41	6,552.77	4,805.0
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ [Loss] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income [after tax]]	1,067.23	509.85	5,855.42	4,281.78	6,430.11	4,484.2
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.07	2,255.0
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	-	-	36,882.25	32,947.18	38,716.88	34,268.6
8	Earnings Per Share (Face value ₹ 10/- each)						
	(a) Basic	4.98	4.53	26.72	20.48	29.03	21.28
	(b) Diluted	4.98	4.53	26.72	20.48	29.03	21.28
	(EPS for the quarter not annualized)						

Notes:

Date: 27th May, 2019

www.gailonline.com

1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter and Year ended 31st March 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailonline.com).

2. The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (Ind AS) prescribed under Section 133 of the

Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. 3. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹1.77 per equity share of ₹10/-each.

4. Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

Place: New Delhi

Regd. Off.: 16, Bhikaiji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi - 110066

For GAIL (India) Limited (A. K. Tiwari) Director (Finance)

Follow us on 👍 📴 in

